



COVID-19 की प्रतिक्रिया में ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 मार्च, 2020) – COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी-19) की प्रतिक्रिया में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), अपने समुदाय को सुरक्षित रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, 23 मार्च से शुरू करते हुए, बस सेवा निम्न प्रकार से कम की जाएगी:

सोमवार से शुक्रवार: शनिवार वाली बढ़ाई हुई सेवा – इसमें कुछ रूट्स पर अतिरिक्त सेवा और चुनिंदा रूट्स पर सुबह जल्दी की ट्रिप्स शामिल हैं

शनिवार: शनिवार वाली नियमित सेवा

रविवार: रविवार वाली नियमित सेवा

शनिवार वाली बढ़ाई हुई सेवा के बारे में विवरण, शुक्रवार, 20 मार्च को शाम 4:30 बजे bramptontransit.com पर पोस्ट किए जाएंगे।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के टर्मिनल और इसका संपर्क केंद्र, संचालन के नियमित घंटे कायम रखेंगे। संचालन के घंटों में किसी भी बदलाव के बारे में bramptontransit.com पर सूचित किया जाएगा।

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट एक महत्वपूर्ण सेवा है और यह समुदाय में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। सवारियों के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद।

समुदाय में COVID-19 के संचरण को कम करने के लिए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट यह लागू करेगी:

- सामाजिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ली जाएंगी। इसका अर्थ है कि जब बसों की आधी सीटें भर जाएंगी, तो बस स्टॉप से आगे चली जाएगी। इससे कुछ सवारियां बस में चढ़ने से वंचित रह सकती हैं। शेष सवारियों को लेने के लिए और बसें लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- अधिक व्यस्त रूट्स पर, आर्टिकुलेटिड (अलग-अलग हिस्सों वाली) बसों का उपयोग किया जाएगा ताकि यात्रियों में सामाजिक दूरी को कायम रखने के लिए सहायता की जा सके। इसका अर्थ है कि नियमित रूट्स पर, ज़ूम (Züm) आर्टिकुलेटिड बसें देखी जा सकती हैं। कृपया बसों पर दिए मंज़िल संबंधी संकेतों पर पूरा ध्यान दें।
- बस में कर्मचारियों सहित, हर किसी के बीच में उपयुक्त दूरी को सुनिश्चित करने के लिए, सीटों को पीली टेप से ब्लॉक किया जाएगा। सवारियों को इन सीटों पर न बैठने का अनुरोध किया जाता है।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने की समय सारणी पहले की तरह ही प्रभावी रहेगी। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोजाना पोंछा जाएगा और रोगाणु मुक्त किया जाएगा। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र, वाइप्स जैसे अपने खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।



BRAMPTON

Service and Information Update

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मेजर्स ऑफिस (Brampton Emergency Measures Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca